



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 02.02.23

## पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा आत्महत्या का प्रयास कर रहे युवक को बचाया।

दिनांक 31.01.2023 को थाना क्षेत्र में एक युवक अभय शुक्ला पुत्र स्व० विनोद कुमार शुक्ला निवासी ग्राम इस्माईलपुर थाना गुरसहायगंज जनपद कनौज हाल पता म०न० H-120 प्रतापविहार द्वारा व्यवसाय में 90,000/- रुपये का घाटा होने पर हताश होकर अपने किराये के मकान प्रतापविहार में आत्महत्या करने का प्रयास करने लगा। युवक द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने की वीडियो बनाकर अपने ट्विटर एवं फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर दिया जिसके सम्बन्ध में लखनऊ कन्ट्रोल रूम व गाजियाबाद कन्ट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये काफी प्रयास करने के बाद युवक की लोकेशन पर पहुँच कर युवक को सकुशल बचाया गया तथा थाना लाया गया। युवक को काफी समय थाना कार्यालय में बैठाकर समझाया गया तथा काउंसलिंग की गयी। उसके बाद युवक के सामान्य हो जाने पर उसके बताये परिचितो को बुलाकर उनके सुपुर्द किया गया।

### युवक का नाम व पता:-

अभय शुक्ला पुत्र स्व० विनोद कुमार शुक्ला निवासी ग्राम इस्माईलपुर थाना गुरसहायगंज जनपद कनौज हाल पता म०न० H 120 प्रतापविहार थाना विजयनगर उम्र-23 वर्ष।

### कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

## थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01.02.2023 को श्री कुमोद माहेश्वरी निवासी मोदीनगर गाजियाबाद के खेत मे बने ट्यूबवैल पर श्रीमति राजकुमारी रहती थी जिसके बर्तन व घरेलू सामान ट्यूबवैल पर रखा था। दिन मे ट्यूबवैल के ताले तोडकर बर्तन आदि चोरी कर लिये थे जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु०अ०सं० 65/2023 धारा 457/380/427 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था जिससे सम्बन्धित अभियुक्त सोनू पुत्र गजेन्द्र सिंह नि० गली न० 4 फफराना बस्ती थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को मय चोरी किये गये बर्तन के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के

समक्ष पेश किया जा रहा है तथा अभियुक्त रानी पुत्र महेश नि० गली न० 5 फफराना बस्ती थाना मोदीनगर गाजियाबाद की तलाश व गिरफ्तारी जारी है ।

### अभियुक्त का नाम पता:-

सोनू पुत्र गजेन्द्र सिंह नि० गली न० 4 फफराना बस्ती थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद

### पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु.अ.स. – 0065/23 धारा 457/380/411/427 भादवि

## **थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से दो अवैध तमंचा व दो जिन्दा कारतूस बरामद ।**

थाना ट्रोनिका सिटी पर दि० 19.01.2023 को श्री राशिद अली पुत्र श्री हाजी अली खान निवासी पासोंडा थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद ने अभियुक्तगण 1. हरेन्द्र हरसाना उर्फ हैरी पुत्र जगदीश उर्फ गोली 2. सागर बैसोया पुत्र मनोज निवासीगण ग्राम नूरपुर थाना खेकडा जनपद बागपत 3. रोहित बैसला पुत्र श्री सूबे सिंह निवासी ग्राम अगरोला, थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 4. निक्की उर्फ निखिल पुत्र इंदरपाल निवासी रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम निवाली थाना बागपत जनपद बागपत 5. उज्जवल उर्फ गोलू पुत्र नंदी निवासी ग्राम अगरोला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद 6. जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र तेज सिंह निवासी ग्राम खानपुर जसी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 7. एक अन्य गाड़ी में सवार हरेन्द्र नूरपुर के कुछ अन्य साथी नाम पता अज्ञात के द्वारा वादी के सरकारी खनन के पट्टे से अवैध तरीके से खनन करने का प्रयास करना व मना करने पर जान से मारने की नियत से फायर करना, मारपीट करना, खनन पट्टा बन्द करने की धमकी देना तथा रंगदारी मांगने व मोबाइल फोन पर धमकी देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था । थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर, सर्विलांस व मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 02.02.2023 को दौराने चेकिंग टोल नाका कट से करीब 100 मीटर दूर सिग्नेचर सिटी रोड पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तगण 1. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र तेज सिंह 2. अमित उर्फ घम्मन पुत्र जगरूप को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 02 तमंचा नाजायज मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए । अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-

1. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र तेज सिंह निवासी खानपुर जपती, थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष ।
2. अमित उर्फ घम्मन पुत्र जगरूप निवासी ग्राम मुथरापुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

### आपराधिक इतिहास जितेन्द्र उर्फ जीतू:-

अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू उपरोक्त के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में एक अभियोग गैंगस्टर एक्ट व दो अभियोग मारपीट/पथराव करना पंजीकृत है।

**बरामदगी का विवरण-**

02 तमंचा नाजायज मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

**गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-**

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।